


## Students' Seminar in the Dept. of Physics- 28<sup>th</sup>-29<sup>th</sup> Feb. 2020



A two day seminar was organised on 28<sup>th</sup> & 29<sup>th</sup> Feb. 2020 by the Department of Physics coordinated by Dr. Jitendra Singh.

From M. Sc. Previous, Kulmeet Kumar on MOSFET, Hari Shankar Mishra on Op-amp, Himanshu Sharma on SCR, Sunny on Oscillator, Nishant Tiwari and Kirti Rai on Coupling scheme, Divyanshi Tiwari on 555 timer, Jyoti Jaiswal on SCR, Manu Singh on Multi-vibrator and Prachi Mishra on Laser Raman Spectra presented their papers.




From M. Sc. Final, Vikas Tiwari on Multiplexer and demultiplexer, Anand Kumar Tiwari on Crystal defect and its significance, Naveen on Identical particle, Dinesh Verma and Smriti Sharma on Encoder and decoder, Piyush Kumar Dubey on Satellite communication, Priyanshi on Microprocessor, Ambika Raj Singh on BCD and Grey code, Shreya Singh on Modulation and Swati Shukla on Satellite communication presented their papers.

Paper presenters also answered the questions raised by the audience.



Prof. S.N. Shukla, Pro V.C. of Dr. Rammanohar Lohia Awadh University, was the chief guest and Keynote speaker of the valedictory session of the seminar. He emphasised the need of innovative practices in science teaching to make it worthwhile. He shared his experience of 15 Days educational visit of Pennsylvania University and discussed the education system and research achievements of the students of that university. He distributed the certificates to the participants.

Prachi Srivastava, Swati Shukla, Anuradha, Ambika, Simaran and Nidhi depicted a Rangoli on Chandrayan Mission-3 of ISRO.



In the starting of the session, Secretary of Management Committee, Shri Umesh Shah, felicitated the chief guest. He suggested to include innovative techniques while teaching and learning process and emphasized to understand the importance of technology in Study and Research.

Principal of the college, Dr. Vandana Saraswat, proposed the Vote of Thanks and motivated the students for research and innovation.

Assistant Professors, Santosh Kumar Srivastava, Dr. D. N. Pandey, Dr. Anoop Shukla, Shobhit Maurya and Namrata Shukla also motivated the students to participate in such seminars.

